



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215165

CG-DL-E-06012020-215165

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जनवरी 2, 2020/पौष 12, 1941

No. 47]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2020/ PAUSHA 12, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या.361 के कि.मी. 567.000 से कि.मी. 522.420 तक (मालेगांव से डेरला खंड) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप विभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी कंधार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या. 361 के कि.मी. 567.000 से कि.मी. 522.420 म.रा.म 2 (मालेगांव से डेरला खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: लोहा					
गांव का नाम: हरसद					
1	130	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
गांव का नाम: होटलवाडी					
1	40	निजी	कृषि	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
2	40	निजी	कृषि	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
3	41	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
4	46	निजी	कृषि	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: कारेगांव					
1	162	निजी	कृषि	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
2	238	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
3	262	सरकारी	अकृषि	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
4	283	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000

5	299	निजी	कृषि	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
6	299	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
7	342	निजी	कृषि	0.0021000(हेक्टेयर)	0.0021000
8	342	निजी	कृषि	0.0021000(हेक्टेयर)	0.0021000
9	342	निजी	कृषि	0.0004000(हेक्टेयर)	0.0004000
10	342	निजी	कृषि	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
11	356	निजी	कृषि	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
12	356	निजी	कृषि	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
13	366	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: लोहा					
1	100	निजी	कृषि	0.0037000(हेक्टेयर)	0.0037000
2	102/5	निजी	कृषि	0.7915000(हेक्टेयर)	0.7915000
3	105	निजी	कृषि	0.8500000(हेक्टेयर)	0.8500000
4	119	निजी	कृषि	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
5	145	निजी	कृषि	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
6	145	निजी	कृषि	0.8728000(हेक्टेयर)	0.8728000
7	151	निजी	कृषि	0.8000000(हेक्टेयर)	0.8000000
8	152	निजी	कृषि	0.6628000(हेक्टेयर)	0.6628000
9	153	निजी	कृषि	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
10	281	निजी	कृषि	0.0537000(हेक्टेयर)	0.0537000
11	495	निजी	कृषि	0.0022000(हेक्टेयर)	0.0022000
12	509	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: पार्डी					
1	1	सरकारी	अकृषि	0.5534000(हेक्टेयर)	0.5534000
2	24	निजी	कृषि	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000

3	24	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
4	24	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
5	24	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
6	25	सरकारी	अकृषि	0.7369000(हेक्टेयर)	0.7369000
7	279	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
8	296	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
9	296	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
10	296	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
11	296	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
12	296	निजी		0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
13	297	निजी	कृषि	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
14	297	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
15	440	निजी	कृषि	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
16	440	निजी	कृषि	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
17	440	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
18	470	निजी	कृषि	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
19	88	निजी	कृषि	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
20	95	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
21	96	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
22	Pandan	सरकारी	अकृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: धानोरा शेलगांव					
1	120	निजी	कृषि	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
2	121	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000

3	133	निजी	कृषि	0.6400000(हेक्टेयर)	0.6400000
4	134	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
कुल				7.6382	7.6382

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3A9]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 31th December, 2019

S.O. 47(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km 567.000 on MSH 2 to Km 522.420 Km (Malegaon to Derla section) in the District of Nanded in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Kandhar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 567.000 to Km 522.420 on MSH2 (Malegaon to Derla section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: NANDED			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Loha					
Village: Harshad					

1	130	Private	Agricultural	0.0150000(Hectare)	0.0150000
Village: Hotalwadi					
1	40	Private	Agricultural	0.0900000(Hectare)	0.0900000
2	40	Private	Agricultural	0.1200000(Hectare)	0.1200000
3	41	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
4	46	Private	Agricultural	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Karegaon					
1	162	Private	Agricultural	0.0225000(Hectare)	0.0225000
2	238	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
3	262	Government	Non Agricultural	0.0225000(Hectare)	0.0225000
4	283	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
5	299	Private	Agricultural	0.0300000(Hectare)	0.0300000
6	299	Private	Agricultural	0.0500000(Hectare)	0.0500000
7	342	Private	Agricultural	0.0021000(Hectare)	0.0021000
8	342	Private	Agricultural	0.0021000(Hectare)	0.0021000
9	342	Private	Agricultural	0.0004000(Hectare)	0.0004000
10	342	Private	Agricultural	0.0450000(Hectare)	0.0450000
11	356	Private	Agricultural	0.0250000(Hectare)	0.0250000
12	356	Private	Agricultural	0.0800000(Hectare)	0.0800000
13	366	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Loha					
1	100	Private	Agricultural	0.0037000(Hectare)	0.0037000
2	102/5	Private	Agricultural	0.7915000(Hectare)	0.7915000
3	105	Private	Agricultural	0.8500000(Hectare)	0.8500000
4	119	Private	Agricultural	0.1600000(Hectare)	0.1600000
5	145	Private	Agricultural	0.1800000(Hectare)	0.1800000
6	145	Private	Agricultural	0.8728000(Hectare)	0.8728000
7	151	Private	Agricultural	0.8000000(Hectare)	0.8000000
8	152	Private	Agricultural	0.6628000(Hectare)	0.6628000
9	153	Private	Agricultural	0.1900000(Hectare)	0.1900000
10	281	Private	Agricultural	0.0537000(Hectare)	0.0537000
11	495	Private	Agricultural	0.0022000(Hectare)	0.0022000
12	509	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Pardi					
1	1	Government	Non Agricultural	0.5534000(Hectare)	0.5534000
2	24	Private	Agricultural	0.0050000(Hectare)	0.0050000

3	24	Private	Agricultural	0.0150000(Hectare)	0.0150000
4	24	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
5	24	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
6	25	Government	Non Agricultural	0.7369000(Hectare)	0.7369000
7	279	Private	Agricultural	0.0500000(Hectare)	0.0500000
8	296	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
9	296	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
10	296	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
11	296	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
12	296	Private	Agricultural	0.0073000(Hectare)	0.0073000
13	297	Private	Agricultural	0.0093000(Hectare)	0.0093000
14	297	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
15	440	Private	Agricultural	0.0400000(Hectare)	0.0400000
16	440	Private	Agricultural	0.0300000(Hectare)	0.0300000
17	440	Private	Agricultural	0.0150000(Hectare)	0.0150000
18	470	Private	Agricultural	0.0050000(Hectare)	0.0050000
19	88	Private	Agricultural	0.0050000(Hectare)	0.0050000
20	95	Private	Agricultural	0.0150000(Hectare)	0.0150000
21	96	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
22	Pandan	Government	Non Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Shelgaon (Dha)					
1	120	Private	Agricultural	0.0900000(Hectare)	0.0900000
2	121	Private	Agricultural	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	133	Private	Agricultural	0.6400000(Hectare)	0.6400000
4	134	Private	Agricultural	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Total				7.6382	7.6382

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3A9]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.